

बिहार सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग

ज्ञाप संख्या-2/वि.60-135/2023...../

पटना, दिनांक/2026

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
पटना।

विषय :- शिवहर जिला के लिए सांस्कृतिक कैलेंडर-2026 में शामिल देकुली धाम महोत्सव के आयोजन के निमित्त कुल ₹ 2,00,000 /-(दो लाख रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

- 2- राशि का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-08 के अधीन बजट शीर्ष "2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-0101-कला और संस्कृति का संवर्द्धन विपत्र कोड-08-2205001020101 के अंतर्गत विषय शीर्ष 2002 कान्फ्रेंस, कार्यशाला सेमिनार में होगा।
- 3- इस राशि की निकासी जिला पदाधिकारी, शिवहर, द्वारा जिला कोषागार, शिवहर से की जायेगी तथा विषयांकित कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4- जिला पदाधिकारी द्वारा विषयांकित कार्यक्रम का आयोजन स्वीकृत राशि के अंतर्गत ही हो इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 5- उक्त राशि का कार्यान्वयन प्रतिवेदन एवं व्यय विवरणी, विडियो, फोटोग्राफ आदि एक माह के अंदर विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 6- यह स्वीकृति वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888, दिनांक-03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में दी गयी है।
- 7- उक्त प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0-2/वि.60-135/2023 के पृष्ठ-12/टि0, दिनांक-07.08.2026 एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ-11/प0, दिनांक-03.08.2026 पर प्राप्त है।
- 8- वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि (2) दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(रूबी)

निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।

ज्ञापांक 292...../

पटना, दिनांक 10/08...../2026

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, शिवहर/जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, सांस्कृतिक कार्य/प्रशाखा पदा0-1 एवं 2/बजट सहायक/आई0टी0 प्रबंधक (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।